

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 429]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2016—आश्विन 29, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 (आश्विन 29, 1938)

क्रमांक-27519-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) की धारा 13 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना प्रकाशित की जाती है :—

अधिसूचना

'श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा का दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 को निधन हो जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष का पद उक्त दिनांक से रिक्त हो गया है'

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.